

आपके बच्चे का कार्यात्मक विकास

आप और आपके प्रदाताओं की टीम ये तय करेगी कि आपका बच्चा सामान्य पारिवारिक दिनचर्या और गतिविधियों में कार्यात्मक तरीके से कैसे भाग लेता है। जैसे कि, आपका बच्चा सिर्फ कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है लेकिन आपके साथ संवाद करने के उसके पास दूसरे प्रभावी तरीके मौजूद हैं, जैसे सांकेतिक भाषा, आवाज़ें, आपका हाथ पकड़ना या इशारा करना।

आप और आपकी टीम आपके द्वारा लाई गई जानकारी का इस्तेमाल आपके बच्चे के विशेषज्ञ के रूप में करेंगे। आप पेशेवर और अन्य देखभालकर्ता टिप्पणियों, मूल्यांकन उपकरणों और भी बहुत कुछ पर भी विचार करेंगे। बच्चों को घर, समुदाय और बाल देखभाल या प्रीस्कूल जैसी जगहों पर सफल होने के लिए, उनके पास तीन क्षेत्रों में बेहतरीन स्किल्स होने चाहिए:

1. पॉज़िटिव सोशल रिलेशनशिप्स
2. नए स्किल्स अपनाना और उनका इस्तेमाल करना
3. अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कदम उठाना

Functional Skills (कार्यात्मक कौशल) क्या हैं?

सिर्फ़ ये जानने के बजाय कि आपके बच्चे में कौन से स्किल्स मौजूद हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि वे अपने लिए सार्थक चीज़ों को पूरा करने के लिए पूरे दिन उनका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। जैसे कि, ये जानना ज़रूरी है कि आपका बच्चा कितने शब्द बोल सकता है, लेकिन ये जानना और ज़्यादा सार्थक है कि बच्चा आपको ये बताने के लिए कि उसे खाना चाहिए या किताब में चित्रों का नाम देने के लिए शब्दों का इस्तेमाल कैसे करता है।

Decision Tree (डिसीज़न ट्री) क्या है?

डिसीज़न ट्री आपको और आपकी टीम को एक ऐसा स्टेटमेंट चुनने में मदद करेगा जो सबसे अच्छा वर्णन करता है कि आपका बच्चा अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तुलना में ऊपर सूचीबद्ध तीन क्षेत्रों में कैसा प्रदर्शन कर रहा है। हम इस जानकारी का इस्तेमाल ये तय करने के लिए करेंगे कि कौन सी सेवाएँ आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगी और आपके व आपके बच्चे के लिए एक प्लान तैयार करेंगे।

डिसीज़न ट्री का इस्तेमाल करते समय ध्यान रखने लायक बातें

- इस बारे में सोचें कि बच्चा अलग-अलग जगहों पर और अलग-अलग लोगों के साथ रोज़मर्रा की गतिविधियों में भाग लेने के लिए कार्यात्मक कौशल का इस्तेमाल कैसे करता है।
- टीम द्वारा चुना गया स्टेटमेंट आपके बच्चे की कार्यप्रणाली को प्रतिबिंबित करना चाहिए:
 - एक निश्चित सेटिंग में आपके बच्चे से अपेक्षाएँ। ये तय करने के लिए अपने घरेलू संस्कृति की अपेक्षाओं का इस्तेमाल करें कि क्या आपका बच्चा घर पर अपनी उम्र के मुताबिक अपेक्षित स्तर पर काम कर रहा है।



CHILD OUTCOME SUMMARY (बाल परिणाम सारांश, COS) पारिवारिक तैयारी वर्कशीट
EARLY SUPPORT FOR INFANTS AND TODDLERS (शिशुओं व बच्चों के लिए प्रारंभिक सहायता, ESIT)

- उनके द्वारा सहायक तकनीक/उपकरणों (कान की मशीन, चश्मा, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सहायक उपकरण आदि) का इस्तेमाल, जब वो आम तौर पर उपलब्ध हो। सेटिंग्स में उनकी वास्तविक कार्यप्रणाली, ना कि आदर्श परिस्थितियों में कार्यप्रणाली अगर उनके पास तकनीक मौजूद हो।
- आपके बच्चे की क्रोनोलॉजिकल उम्र, भले ही उसका जन्म समय से पहले हुआ हो।



CHILD OUTCOME SUMMARY (बाल परिणाम सारांश, COS) पारिवारिक तैयारी वर्कशीट
EARLY SUPPORT FOR INFANTS AND TODDLERS (शिशुओं व बच्चों के लिए प्रारंभिक सहायता, ESIT)

फैमिली वर्कशीट: मेरे बच्चे के विकास पर एक नज़र

ये वर्कशीट आपको अपने बच्चे की ताकतों और विकास के अवसरों के बारे में सोचने में मदद करेगी

नीचे दी गई रिक्त जगहों को उन चीज़ों से भरें जिन्हें आपने अपने बच्चे को विकास के इन तीन कार्यात्मक क्षेत्रों में करते देखा है। उन स्किल्स के बारे में सोचें जो आपके बच्चे के पास अभी मौजूद हैं और जिन स्किल्स को आप अपने बच्चे के सीखने के लिए ज़रूरी मानते हैं। ये ज़रूरी है कि *आप* अपने बच्चे के बारे में जो जानते और मानते हैं उसे मूल्यांकन और IFSP टीम चर्चा में शामिल किया जाए।

| | मेरा बच्चा कैसे... | मेरे बच्चे की ताकतें हैं... | विकास के अवसर हैं... |
|------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|
| 1: पॉज़िटिव सोशल रिलेशनशिप्स | <ul style="list-style-type: none"> • दूसरों से मिलता-घुलता है • अपनी भावनाएँ ज़ाहिर करता है • छूने पर प्रतिक्रिया देता है • किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किसी गतिविधि में रुचि रखता है • एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि पर जाता है • बर्ताव करता है जब वो और ज़्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहता है • दिनचर्या और अपेक्षाओं को समझता है • आगे-पीछे होता है • चिड़चिड़ाहट से निपटता है | | |



CHILD OUTCOME SUMMARY (बाल परिणाम सारांश, COS) पारिवारिक तैयारी वर्कशीट
EARLY SUPPORT FOR INFANTS AND TODDLERS (शिशुओं व बच्चों के लिए प्रारंभिक सहायता, ESIT)

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>2: नए स्किल्स अपनाना और उनका इस्तेमाल करना</p> | <ul style="list-style-type: none"> • रोजमर्रा की सेटिंग्स में शब्दों का इस्तेमाल करता है • किसी समस्या का समाधान करता है (उस चीज़ को हासिल करता है जो उसकी पहुँच से बाहर हो) • निर्देशों और अनुरोधों को समझता है और/या उनका जवाब देता है • दूसरों की नकल करता है • सवालों के जवाब देता है • किताबों, चित्रों, चीज़ों का इस्तेमाल करता है | | |
| <p>3 अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कदम उठाना</p> | <ul style="list-style-type: none"> • बुनियादी ज़रूरतों का ख्याल रखता है • आपको बताता है कि वो क्या चाहता है और उसे क्या चाहिए • खतरे के प्रति जागरूकता दिखाता है • एक जगह से दूसरी जगह जाते समय हिलता-डुलता है • खिलौनों से खेलने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करता है | | |
| <p>विचार करने लायक अतिरिक्त सवाल</p> | <ul style="list-style-type: none"> • मेरे बच्चे को किन गतिविधियों या लोगों से मज़ा आता है? • मेरा बच्चा मुझे कैसे बताता है कि उसे क्या पसंद है? • मेरा बच्चा सबसे ज़्यादा सहयोग कब करता है? • मेरा बच्चा किस चीज़ से सहम जाता है? | <ul style="list-style-type: none"> • मेरे बच्चे को कौन सी गतिविधियाँ या लोग नापसंद हैं? • मेरा बच्चा मुझे कैसे बताता है कि उसे क्या पसंद नहीं है? • मेरे बच्चे को किस चीज़ से डर लगता है? • मेरा बच्चा किस चीज़ से चिड़ता है? | |

